

DAV NCL PUBLIC SCHOOL, GORBI

HOLIDAY HOMEWORK

CLASS-VIII

ENGLISH-

1. Learn Tenses rules of each tenses.

2. Write 5-5 sentences in Direct speech and convert them into Indirect speech .

3. Topic -Locked in the school after hours!

Write a diary entry imagining you accidentally got locked inside your school after everyone left.

Describe-

How it happened .

Your feelings and thoughts .

What you did while waiting for help.

What happened when someone found you . Word limit: 150-180 words.

हिन्दी -

1. अपनी अध्यापिका या अध्यापक के लिए एक प्यारा सा पत्र लिखें कि उन्होंने छुट्टियों में स्कूल की कौन-कौन सी बातों को याद किया एवं गर्मी की छुट्टियाँ कैसे बिताई ?
2. 'ज्ञान सागर' की पुस्तक में दिए गए कवियों का जीवन परिचय लिखिए |
3. 'समास' का मॉडल या TLM बनाइए |
4. प्रतिदिन एक पेज सुलेख लिखिए, दिनांक के साथ |

Mathematics-

1. Find out a Pythagorean triplet if one number is 12

- A) 36, 37 B) 34, 36 C) 37, 35
D) 24, 36

2. The square root of 3.052009 has _____ decimal place

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 1

3. How many non-square are there between 101^2 and 102^2

- A) 202 B) 104 C) 204
D) 101

4. $\sqrt{.64} - \sqrt[3]{.027}$ is equal to?

- A) .4 B) .5 C) .3
D) .2

5. $\sqrt[3]{25\sqrt[3]{125\sqrt[3]{1}}}$ is equal to?

21. Which smallest number must be 3600 be multiplied to make it a perfect cube?
22. Find the cube root of 4741632 by estimation.
23. Evaluate: $\sqrt[3]{\frac{.027}{.008}} \div \sqrt{\frac{.09}{.04}} - 1$
24. Find the value of the following cube roots $\sqrt[3]{27 \times 2744}$
25. Find the cube root of the following number through estimation: 110592, 3375, -2744000

PROJECT/TLM/MODEL

Maths TLM model on shapes and volumes | Paper model

OR

laws of exponents maths working model - maths tlm project model

OR

Algebraic expression and working model

OR

Maths Working Model on Square & Cube Numbers

OR

TYPES OF POLYNOMIALS

Science-

1. Find out the names of places in India where mines of gold, copper and iron are located.
2. Make a list of five articles used at home and school, which are made up of alloys. Write their composition also.
3. Learn chapter 1 and 3.

Social Science-

1. Learn and write questions and answers of Chapter 1 - Resources - Utilisation and Development.
Chapter 8 - The Modern Period.
2. Prepare a pictorial chart showing the classification of resources given at least a suitable example.

संस्कृत- 1. आर्यभट्ट का जीवन परिचय संस्कृत भाषा में लिखिए।

2. भारतीय संस्कृति में संस्कृत भाषा का महत्व लिखिए।

3. प्रथम पाठ द्वितीय पाठ के सभी प्रश्न उत्तर याद करें।

General Knowledge-

On a chart paper draw or paste and write down top ten Industrial states in India.